

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 12/2018 राजस्व अपील

1. सवाईसिंह पुत्र शिम्मूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गैरोजी हाल निवासी उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक 24.11.2017 प्रकरण उनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय बनाम सवाईसिंह प्रकरण सं0 06/2017 अ0 धारा 91 रा0 भू0 रा0 अधिनियम

उपस्थिति : श्री राकेश जैमन अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक: 19.07.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय ने अपीलान्ट के विरुद्ध एक रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक अधिकारी दौसा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम उदयपुरा तहसील सिकराय में स्थित वन भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 0.50 है0 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा ने निर्णय दिनांक 24.11.2017 द्वारा अपीलान्ट को बेदखल करने व 500/— रुपये की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय फरमा दिया। न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 24.07.2017 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का यह निर्णय विधि, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। सहायक वन संरक्षक दौसा ने अपीलान्ट को बिना समुचित सुनवाई, जवाब, साक्ष्य, जिरह व सबूत का अवसर दिये बिना ही एकतरफा में यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के समक्ष क्षेत्रीय वन अधिकारी




बहि0 विकास कलेक्टर
दौसा



सिकराय ने न तो मौके पर जाकर भूमि का मौका देखा और ना ही मौका रिपोर्ट बनाई और ना ही अपीलान्ट को वन भूमि की कोई सीमा समझाई गई। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं हुआ है। अपीलान्ट को पूर्व में अतिक्रमण बाबत कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। अपीलान्ट अत्यन्त गरीब ग्रामीण व्यक्ति है। अपीलान्ट ने किसी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि रिहायश के लिये एक छोटा सा मकान बना रखा है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के निर्णय दिनांक 24.11.2017 को निरस्त करने की कृपा करे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम उदयपुरा तहसील सिकराय में स्थित वन भूमि खसरा नं० 378 रकबा 0.50 है० में पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित वन भूमि से दिनांक 24.11.2017 को बेदखल कर 500/- रुपये की शास्ति अधिरोपित करने की सजा से दण्डित किया गया है। न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। अतिक्रमी द्वारा स्वयं न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा में उपस्थित होकर मौखिक रूप से बताया गया है कि मेरे पास उक्त भूमि का कोई पट्टा नहीं है एव ना ही आवंटन है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वन विभाग की होना ही प्रमाणित है। अपीलान्ट ने स्वयं बताया है कि उसने रिहायश के लिये छोटा सा मकान बना रखा है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत राजकीय वन भूमि है। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 24.11.2017 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 06/2017 उनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय बनाम सवाईसिंह में अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2017 के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं दौसा न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलेक्टर, दौसा

